

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24022024-252332
SG-DL-E-24022024-252332असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]	दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 23, 2024/फाल्गुन 4, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 443
No. 72]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 2024/PHALGUNA 4, 1945	[N. C. T. D. No. 443

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIविधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
दिल्ली, 22 फरवरी, 2024

सं. एफ. 24/5/वित्तीय.स./2020/विसस-7/विधायी/1623.—दिल्ली विधान सभा के निम्नलिखित सदस्य वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए वित्तीय समितियों के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं :-

लोक लेखा समिति

1. सुश्री भावना गौड़
2. श्री दुर्गेश कुमार
3. श्री मदन लाल
4. श्री नरेश बाल्यान
5. श्री प्रहलाद सिंह साहनी
6. श्री सोम दत्त
7. श्री विजेन्द्र गुप्ता
8. श्री विनय मिश्रा
9. श्री विशेष रवि

सरकारी उपक्रमाँ संबंधी समिति

1. श्री अजेश यादव
2. सुश्री भावना गौड़
3. श्री दुर्गेश कुमार
4. श्री जरनैल सिंह
5. श्री मोहन सिंह बिष्ट
6. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
7. श्रीमती प्रीति जितेन्द्र तोमर
8. श्री राजेश गुप्ता
9. श्री रोहित कुमार

प्राक्कलन समिति

1. श्रीमती ए. धनवती चंदीला ए.
2. श्री अजय दत्त
3. श्री अजय महावर
4. श्री भूपेन्द्र सिंह जून
5. श्री हाजी युनूस
6. श्री कुलदीप कुमार
7. श्री नरेश यादव
8. श्री राजेश गुप्ता
9. श्री एस. के. बग्गा

राज कुमार, सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**NOTIFICATION**

Delhi, the 22nd February, 2024

No. F. 24/5/Fin.C./2020/LAS-VII/Leg./1623.—The following Members of Delhi Legislative Assembly have been elected unopposed to the Financial Committees for the financial year 2024-2025:-

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

1. Ms. Bhavna Gaur
2. Shri Durgesh Kumar
3. Shri Madan Lal
4. Shri Naresh Balyan
5. Shri Parlad Singh Sawhney
6. Shri Som Dutt
7. Shri Vijender Gupta
8. Shri Vinay Mishra
9. Shri Vishesh Ravi

COMMITTEE ON GOVERNMENT UNDERTAKINGS

1. Shri Ajesh Yadav
2. Ms. Bhavna Gaur

3. Shri Durgesh Kumar
4. Shri Jarnail Singh
5. Shri Mohan Singh Bisht
6. Smt. Pramila Dhiraj Tokas
7. Smt. Preeti Jitender Tomar
8. Shri Rajesh Gupta
9. Shri Rohit Kumar

COMMITTEE ON ESTIMATES

1. Smt. A. Dhanwati Chandela A.
2. Shri Ajay Dutt
3. Shri Ajay Mahawar
4. Shri Bhupinder Singh Joon
5. Shri Haji Yunus
6. Shri Kuldeep Kumar
7. Shri Naresh Yadav
8. Shri Rajesh Gupta
9. Shri S. K. Bagga

RAJ KUMAR, Secy.